



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15—मार्च 21, 2008 (फाल्गुन 25, 1929)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15—MARCH 21, 2008 (PHALGUNA 25, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. आरएस./3/3/2008/5—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत उप निदेशक (वृत्तलेखन), कु. मनजीत कौर सेठी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (वृत्तलेखन), के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./3/3/2008/6—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ संसदीय वृत्तलेखकों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में

संसदीय वृत्तलेखक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

1. श्री विनोद कुमार
2. श्री अरुण कुमार गुप्ता

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./3/8(1)/2008/7—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (सुरक्षा), श्री सुरेश कुमार बक्शी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./3/8(1)/2008/8-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी ग्रेड के निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :---

1. श्री सुनील शौकीन
2. श्री धर्म बीर शर्मा
3. श्री शाजी ऑगस्टीन

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. आरएस./1012/स्था. (कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री मनोहर राम आर्या, सहायक निदेशक 29 फरवरी, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./1555/स्था. (कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सतबीर सिंह, उप निदेशक (सुरक्षा) 29 फरवरी, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2008

सं. ए-20012/05/2005-प्रशा. 1--उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव के रूप में 22,400-525-24,500/- रुपए के वेतनमान में इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 7 वर्ष की उनकी संयुक्त केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने तक अर्थात् 22.12.2009 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्ति हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री राजू शर्मा, भा.प्र.से. (उत्तर प्रदेश : 82) ने 19 फरवरी, 2008 से मंत्रिमंडल सचिवालय में राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता के निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव का पदभार छोड़ दिया।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. ए-12025/17/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, योजना आयोग के उपसलाहकार, श्री एस. स्वर्ण गणपति को संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर योजना आयोग में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन) के पद पर प्रोन्नति के आधार पर दिनांक 25.02.2008 से या अगले आदेशों तक नियुक्त करती है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. ए-12023/5/2005-प्रशा.-III(वि.का.)--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के समक्ष उल्लिखित तारीख से अगले आदेशों तक आयकर अपील अधिकरण में लेखा सदस्य के पद पर नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	नाम और पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री बोम्माराजु रामाकोटिया, लेखा सदस्य	11.02.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए. एन. पाहूजा, लेखा सदस्य	11.02.2008 (पूर्वाह्न)

यशवंत सिंह, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 फरवरी 2008

सं. 14016/14/2005-यू.टी.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सत्य गोपाल, भा.प्र.से. (ए जी एम यू : 88) को दिनांक 29 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त करती हैं।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 2008

सं. I-18011/6/2007-आई.पी.एस. IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजय कुमार जैन, आईपीएस (एजीएमयू : 2002) को दिनांक 7 सितम्बर, 2005 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2008

सं.-13017/41/2007-अ.भा.से.-(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार श्री कृष्ण मोहन, भा.प्र.से. (एच.आर. : 77) को हरियाणा

संवर्ग से एजीएमयू संवर्ग में 5.12.07 से आगे की अवधि के लिए और 31.03.08 तक अंतःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति को विस्तार प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

दिनांक 25 फरवरी 2008

सं.-13017/11/2007-अ.भा.से.-(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री पी. बी. सलीम, भा.प्र.से. (डब्ल्यू.बी. : 2001) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति को एतद्द्वारा इस निदेश के साथ अनुमोदन प्रदान करती है कि इसे वरियता के रूप में उद्घृत न किया जाए।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

सं.-13017/37/2006-अ.भा.से.-(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम-मेघालय और महाराष्ट्र सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री खंडे नितिन कुमार शिवदास, भा.प्र.से. (ए.एम. : 2004) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में 3 वर्ष की अवधि के लिए अंतःसंवर्ग प्रतिनियुक्ति की एतद्द्वारा इस निदेश के साथ अनुमोदन प्रदान करती है कि इसे वरियता के रूप में उद्घृत न किया जाए।

जिले सिंह विकल, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं.-14015/02/2007-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग में 01 (एक) विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए दिनांक 20.11.2007 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई एजीएमयूटी (मिजोरम) राज्य की राज्य सिविल सेवा के सदस्य के नाम वाली वर्ष 2007 की चयन सूची दिनांक 19.02.2008 को अनुमोदित कर दी है :--

चयन सूची 2007

अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
श्रीमती एम. जोहमिंगथांगी (अ.ज.जा.)	03.02.1953

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं.-14015/02/2007-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एजीएमयूटी (मिजोरम) की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को वर्ष 2007 की रिक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत उनका आर्बंटन एजीएमयूटी (मिजोरम) संवर्ग में करते हैं :--

अधिकारी का नाम

श्रीमती एम. जोहमिंगथांगी (अ.ज.जा.)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2008

सं.-14015/21/2007-अ.भा.से.-(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में 05 (पाँच) विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 30.12.2007 और 31.12.2007 के दौरान आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई तमिलनाडु राज्य की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य(यों) के नामों वाली वर्ष 2007 की चयन सूची दिनांक 19.02.2008 को अनुमोदित कर दी है :--

चयन सूची 2007

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती जे. उमा माहेश्वरी	15.10.1954
2.	श्री जे. चन्द्रकुमार	31.03.1954
3.	श्री के. रघुपति	20.04.1961
4.	श्री सी. राजेन्द्रन	10.05.1956
5.	श्री पी. मुथुवीरन (अ.जा.)	01.08.1954

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं.-14015/21/2007-अ.भा.से.-(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (2) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

राष्ट्रपति, तमिलनाडु की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य(यों) को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2007 की रिक्तियों हेतु परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत उनका आबंटन तमिलनाडु संवर्ग में करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती जे. उमा माहेश्वरी
2.	श्री जे. चन्द्रकुमार
3.	श्री के. रघुपति
4.	श्री सी. राजेन्द्रन
5.	श्री पी. मुथुवीरन (अ.जा.)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2007

सं. 11019/24/1999-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति निर्देश देते हैं कि यह मान लिया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य और मूलतः आन्ध्र प्रदेश संवर्ग (आ.प्र. : 92) की श्रीमती मैथिली येरा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 7(2) की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 14012/13/2006-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, असम राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री डोनाल्ड फिलिप्स वाहलांग	1993	06.09.1995
2.	श्री डा. शकील पी. अहमद	1995	04.09.1997
3.	श्री पमू सम्पत कुमार	1997	08.09.1999
4.	श्री फ्रेडरिक रॉय	2000	04.09.2002
5.	श्री मेबन्शेलांग आर. सिनरेम	2002	02.09.2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14013/08/2005-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, हरियाणा राज्य संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री ओम प्रकाश इंदौरा	1993	04.01.2002
2.	श्री सी. आर. राणा	1995	04.01.2002

2. उपर्युक्त अधिकारियों का स्थायीकरण श्री वी. के. वर्मा द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ में दायर ओ.ए. सं.-491/एचआर/2000 के अंतिम निर्णय के अधधीन है।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. ए-11013/3/2007-प्र.सु. (प्रशा. I)--प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों/सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के एक पद को एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने हेतु एतद्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की जाती है।

अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. क्यू/पी.ए.-1/27/2008--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (भा.वि.से.) के ग्रेड-IV में इस समय कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को 20 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति के उपरांत ग्रेड
1.	श्री मनोज कुमार भारती	भा.वि.से. का ग्रेड-IV	भा.वि.से. का ग्रेड-III

2. भा.वि.से. के ग्रेड-III में पदोन्नति पर उक्त अधिकारी ने भा.वि. से. के ग्रेड-IV में 20.02.2008 के पूर्वाह्न से कार्यभार त्याग दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भा.वि.से. के ग्रेड-III में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अखिनो विमल, अवर सचिव
(एफ. एस. पी.)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. 4 (फा.सं. 4/21/2007-ए डी ई डी).--भारत के राष्ट्रपति, 16,400--20,000/- रुपये के ग्रेड में विशेष निदेशक, प्रवर्तन के पद पर आसीन निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 12.2.2008 (पूर्वाह्न) से उनकी बकाया केन्द्रीय कार्यावधि के लिए 18,400--22,400/- रुपये के उच्च वेतनमान में नियुक्त करती है :--

क्रम अधिकारियों के नाम
सं.

सर्वश्री

1. एस. के. पांडा, भारतीय राजस्व सेवा
(सी. शु. एवं के. उ. शु.) 1982
2. के. नागेश्वर राव, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) 1986
3. पी. व्हे. दास, भारतीय राजस्व सेवा
(सी. शु. एवं के. उ. शु.) 1983

के. के. खट्टर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 9/2008 (फा. सं. सी-18011/23/2002-प्रशा. 2).--राष्ट्रपति, याचिका (सी) सं. 306/1988 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22.11.1996 के फैसले के अनुसरण में यह आदेश करते हैं कि सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता संवर्ग के ग्रेड 'बी' अधिकारी श्री ई. के. पाठक को पैनल वर्ष 1987 के लिए नियमित आधार पर भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नत माना जाएगा और उनका काम पैनल वर्ष में फा. सं. 32012/8/2000-ए एडी-II (खंड) के तहत दिनांक 21.11.2000 की अधिसूचना सं. 30/2000 में श्री डी. एच. शोभनी (क्र.सं. 19) के नीचे और श्री एम. मुखर्जी (क्र. सं. 20) के ऊपर क्र.सं. 19ए पर रखा गया है।

2. यह नियुक्ति इस मामले में किसी न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित वाद के अंतिम निष्कर्ष के अधीन है।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. 11012/1/2006-आईईएस--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2006 में सफलता प्राप्त करने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली

के यथासंशोधित नियम 8(i)(क)(i) के अंतर्गत भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस.) में कनिष्ठ समय मान में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करती है :--

क्रम	अधिकारियों के नाम	कार्यग्रहण करने की तिथि सं.
1.	सुश्री चन्द्राणी गुप्ता	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
2.	सुश्री भूमिका वर्मा	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
3.	श्री सुधांशु मोहन सामल	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
4.	सुश्री स्वयंप्रवा पाणि	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
5.	श्री प्रशांत सी.	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
6.	श्री मुकेश कुमार	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
7.	सुश्री उर्मिला	04.02.2008 (पूर्वाह्न)
8.	श्री प्रवीण कुमार	04.02.2008 (पूर्वाह्न)

राजन कुमार
निदेशक (आई. ई. एस.)

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2008

सं. 12026/1/2006-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, न्यायाधीश महेश चन्द जैन, अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली को तत्काल प्रभाव से, अपने वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ अध्यक्ष, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद का भी कार्यभार संभालने के लिए प्राधिकृत करती है।

ए. भट्टाचार्या, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. ए.12026/2/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (चयन सूची, 1997), श्री एस. रमन को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद के विरुद्ध 21 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर सलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करती है।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी ;

(i) इस तदर्थ नियुक्ति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल

होने अथवा सलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा;

4। यह तदर्थ नियुक्ति बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2008

सं. ए-4(31)/2007-ईपी जेड--राष्ट्रपति, विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय में कार्यरत श्रीमती माया डी. केम, अपर महानिदेशक (विदेश व्यापार) को दिनांक 20.12.2006 (पूर्वाह्न) से अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, मुद्रा विशेष आर्थिक जोन, मुद्रा (गुजरात) में रु. 18,400--22,400/- के वेतनमान में विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त करती हैं।

श्रीमती बी. रवींद्रन, अवर सचिव

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2008

सं. ए.19011/2/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री अमित सहाय, आईएफएस (एएम : 87) को भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में दिनांक 11.02.2008 (पूर्वाह्न) से दिनांक 23.12.2009 तक की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करती हैं।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19011/4/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. आर. भारती को दिनांक 08.02.2008 (पूर्वाह्न) से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) के अतिरिक्त निजी सचिव के पद का प्रभार त्यागने की अनुमति प्रदान करती हैं।

2. प्रभार त्यागने के परिणामस्वरूप, श्री आर. आर. भारती को दिनांक 08.02.2008 से 07.04.2008 तक 60 दिनों की अर्जित अवकाश मंजूर की जाती है। अवकाश समाप्त होने पर, श्री आर. आर. भारती की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् स्पोर्ट्स ऑथारिटी ऑफ इंडिया को सौंपी जाती हैं।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 फरवरी 2008

सं. ए-38012/3/2007-स्था.-1-ए. एफ. एच. क्यू. सेवा के सहायक और वर्तमान में राज्य मंत्री (खाद्य और सार्वजनिक वितरण)

(डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह) के सहायक निजी सचिव श्री एस. एन. मालवीय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जनवरी 2008

सं.-17012/4/2007-आई एफ एस-11--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को, जिन्होंने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2005/2006 में सफलता प्राप्त की है, उनके नाम के सामने दर्शाया गई तारीख से भारतीय वन सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	परीक्षा का वर्ष	पद ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री अभिलाष दामोदरन	2006	18.08.2007
2.	श्री आलोक कुमार	2005	18.08.2007
3.	श्री बासबाराज एम. होलीयाची	2006	01.12.2007
4.	श्री डी. तिरुवनसामयंबंदनम	2006	01.12.2007
5.	सुश्री गेथाओलू थाइमंड	2006	18.08.2007
6.	श्री के. के. श्रवण कुमार	2006	03.12.2007
7.	श्री मनोज कुमार सोनकर	2006	01.12.2007
8.	श्री मंजुनाथ सी	2006	03.12.2007
9.	सुश्री एम. भर्ती बेला	2006	18.08.2007
10.	श्री एम. रवि कुमार	2006	18.08.2007
11.	श्री मूर्ति बी. एन. एन.	2006	18.08.2007
12.	श्री आर. थांगा पॉन्डियन	2006	01.12.2007
13.	सुश्री राज संदीप	2006	18.08.2007
14.	सुश्री राखी नंद	2006	18.08.2007
15.	श्री रिती साइरियक टी.	2006	03.12.2007
16.	श्री रोहिता कुमार लैका	2006	01.12.2007
17.	श्री आर. श्री करनन	2006	18.08.2007
18.	श्री संजय कुमार तिवारी	2006	01.12.2007
19.	सुश्री शश्वती योगी	2006	18.08.2007
20.	श्री सिद्धांत एम. सी.	2006	18.08.2007
21.	श्री सुजीत कुमार	2006	01.12.2007

1	2	3	4
22.	श्री एस. सुधाकर	2006	01.12.2007
23.	श्री तखत सिंह रानावत	2006	18.08.2007
24.	श्री विश्वेश कुमार	2006	18.08.2007

बी. सी. बेहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 फरवरी 2008

सं. ए-32012/1/2007-पी-1(.)--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निम्नलिखित वैज्ञानिक "ई" रु. (14,300-400-18,300/-) को रु. 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक "एफ" के रूप में सुनम्य भूक योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत प्रोन्नति आधार पर 9 फरवरी 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, नियुक्त करती है :

1. डॉ. के. के. गर्ग
2. डॉ. पी. बी. रस्तोगी
3. डॉ. ई. वी. मूले
4. डॉ. सरोज

मोहन लाल वाधवानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2008

सं. 17013/18/2006-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1966 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2006 और 2007 के लिए वर्षवार चयन सूची तैयार करने हेतु चयन समिति की एक बैठक 13 दिसम्बर, 2007 को आयोजित हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने तमिलनाडु राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके भारतीय वन सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में 1 जनवरी, 2006 को उपलब्ध चार प्रोमोशन कोटा रिक्तियों को भरने तथा 1 जनवरी, 2007 को उपलब्ध दो पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के क्रम में उक्त बैठक में तैयार की गई वर्षवार चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है :

2006 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	जे. एस. अम्ब्रोस	03.01.1955
2.	आर. राजेन्द्र	01.04.1953
3.	डी. मणि	10.07.1952
4.	एम. सुन्दर कुमार	15.03.1954

2007 की चयन सूची

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	के. सुंदर पांडियन	06.06.1956
2.	थंगाराजू एन.	13.07.1956

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 फरवरी 2008

सं. ए-12025/24/97-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. एस. एम. चक्रनारायण को 5 नवम्बर, 1997 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (रेडियो-डायग्नोसिस) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती है :--

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 23 जनवरी 2008

सं. ए-12025/23/2007-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. रूपेश कुमार वी. आर. को 26.10.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में तंत्रिका शल्य चिकित्सा की विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती है।

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. ए-12025/26/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. रतन गुप्ता को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (बाल चिकित्सा) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 29 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन तैनात करती है।

राम लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. ए-12025/116/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. भारती उप्पल को 23 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती है। डॉ. भारती उप्पल को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल,

नई दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।
डॉ. भारती उप्पल दो वर्षों की परीक्षा पर रहेंगी।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. ए-12025/62/2006-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मणीशा मित्तल को 25.6.2007 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती है। डॉ. मणीशा मित्तल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगी।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/III/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डॉ. लोकेश शर्मा को दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती है। डॉ. लोकेश शर्मा को कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. लोकेश शर्मा दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2008

सं. ए-12023/02/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, श्री प्रदीप कुमार ब्राह्मी को जो वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में तदर्थ आधार पर, उप निदेशक के पद पर तैनात हैं, इसी पद पर नियमित प्रतिनियुक्ति के आधार पर तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

[आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसम्बर 2007

सं. ए-33012/1/2005-आयुष (स्थापना-II)--13.12.2007 को आस्ट्रेलिया में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 5/5/2001-ई ओ(एमएम-1) दिनांक 12.12.2007 के अनुसरण में, श्रीमती संगीता गोयल, आई ओ एफ एस (89), निदेशक, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा,

यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, को उनके मूल संवर्ग अर्थात् रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने संबंधी निर्देश के साथ 14.12.2007 के अपराह्न से आयुष विभाग में उनके कर्तव्यों से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुमन चटर्जी, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2008

सं. ए-19012/2/2008-ई.ए.--राष्ट्रपति, श्रीमती शोभा मारवाह, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई. एस. एस.) के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एस. ए. जी.) स्तर के अधिकारी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/- में सलाहकार के पद पर 15 जनवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है।

एच. सी. रुस्तगी, अवर सचिव

सं. ए-19012/1/2008-ई.ए.--राष्ट्रपति, श्री राजीव लोचन, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई. एस. एस.) के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एस. ए. जी.) स्तर के अधिकारी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/- में सलाहकार के पद पर 15 जनवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करती है।

एच. सी. रुस्तगी, अवर सचिव

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. 19011/17/2008-स्थापना--राष्ट्रपति जी, श्री बी. ए. कुट्टोनो, भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक : 77) को 22,400--24,500/- रुपये के वेतनमान में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में 17 जनवरी 2008 पूर्वाह्न से अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर सहर्ष नियुक्त करती है।

देवेन्द्र कुमार छतवाल, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2008

सं. 42018/11/2004-स्था. (जनजातीय कार्य)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/17/2007-सी.एस.-1 (डेस्क) दिनांक 06.12.2007 के अनुसरण में तथा शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ए-32013/1/2007-प्रशा. 1, दिनांक 26.12.2007 द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर राष्ट्रपति, श्री गोरधन लाल को 26.12.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में समावेशित करने या ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति पुनः केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के एम.ए.सं. 2170/2006, ओ.ए.सं. 2793/2005, एम.ए.सं. 27.10.2005 के आदेश दिनांक 11.01.2007 के अधीन होगी।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. 12034/2/2004-स्था.--राष्ट्रपति, डॉ. एस. के. राजू, भा.प्र.से. (सी.जी. : 98) को 18.02.2008 के पूर्वाह्न से 12,750-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में उप-सचिव के स्तर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए तब तक वह निजी सचिव के रूप में कार्य करना बन्द न कर दें तब तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किडिया) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी 2008

सं. ए-12025/1/2008-प्रशासन 2--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वर्ग 'क' अधिकारी श्रीमती कैलाश दत्ता को, तदर्थ आधार पर, दिनांक 20.2.2008 (अपराह्न) से एक वर्ष तक अथवा नियमित निदेशक (रा. भा.) उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, के लिए, दूरसंचार विभाग में, रुपये 14,300-400-18,300/- के वेतनमान वाले निदेशक (राजभाषा) के पद पर सहर्ष, नियुक्त करते हैं।

एल. टी. तलुंगा, उप सचिव

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 फरवरी 2008

सं. 2(8)/2007-का. I(खण्ड-II)--राष्ट्रपति जी ने श्री नवनीत (कर्मचारी कोड संख्या-961) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 11.02.2008 के पूर्वाह्न से 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 'बी' नियुक्त किया है।

2. उन्हें उपर्युक्त वेतनमान के न्यूनतम सोपान पर वेतन मिलेगा।

3. वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. 4(322)/88-कार्मिक- I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. राम गोपाल गुप्ता (कर्मचारी कोड सं. 103) अधिवर्षिता की

आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29.02.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. पीएफ/4330/एनआईसी/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति एतद्वारा श्रीमती सोनल कालरा, कर्मचारी कोड सं. 4330, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "सी", के पद से त्यागपत्र दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशासन-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जनवरी 2008

सं. 13-1/2008-एसपीजी--डाक विभाग के डाक सेवा समूह 'ख' के अधिकारी, श्री चन्दर सिंह, सहायक निदेशक (फिलैटली) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 28 जनवरी 2008

सं. 1-1/2008-एसपीजी--श्री ए. अन्नामलई (भारतीय डाक सेवा-1979) पोस्टमास्टर जनरल, दक्षिण क्षेत्र, मदुरै अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2008 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 30 जनवरी 2008

सं. 13-19/2007-एसपीजी--श्री आर. के. गुप्ता, वरिष्ठ समयमान समूह 'क' अधिकारी जो निदेशक डाक सेवा, गोरखपुर (तदर्थ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, भारतीय डाक सेवा समूह 'क', डाक विभाग के तौर पर कार्यरत थे, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2008 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 31 जनवरी 2008

सं. 4-3/2008-एसपीजी--श्री आर. एस. कर्दम, नियमित कनिष्ठ समयमान भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के अधिकारी और सहायक महानिदेशक (डाक प्रचालन), डाक भवन, नई दिल्ली-01 के तौर पर

कार्यरत अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

प्रधान मुख्य पोस्टपोस्टर जनरल का कार्यालय, दिल्ली सर्किल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 फरवरी 2008

विषय : भारत के राजपत्र में सहायक अधीक्षक डाकघर के नामों की अधिसूचना के संबंध में।

सं. स्टाफ/बीबी-5/एसजीपी/स्था./07--प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सूचित करते हैं कि निम्नलिखित सहायक अधीक्षक डाकघर रु. 6,500-200-10,500/- वेतनमान में सहायक अधीक्षक डाकघर संवर्ग में नियुक्त किए गए थे। दिनांक 28.07.2005 से पूर्व, यह संवर्ग अराजपत्रित था और अब यह आदेश दिया गया है कि सभी सहायक अधीक्षक डाकघर के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं :--

क्रम सं.	नाम
1	2
1.	श्री जगदीश बाबू--(एपीएस)
2.	श्री कमल सिंह--(एपीएस)
3.	श्री खुशीराम शर्मा
4.	श्री जे. पी. पाण्डे--(एपीएस)
5.	श्री ए. एस. काला
6.	श्री एस. बी. सदावर्ती
7.	श्री डी. एन. शर्मा
8.	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा
9.	श्री देवेन्द्र मणि
10.	श्री कैलाश चन्द
11.	श्री युधिष्ठिर शर्मा
12.	श्री रमेश चन्द
13.	श्री एस. एल. कंडवाल--(एपीएस)
14.	श्री भगवान मलिक--(एपीएस)
15.	श्री जे. पी. राजौर
16.	श्री बलेश्वर दयाल
17.	श्री एस. पी. सिंह
18.	श्री ए. एस. दहिया
19.	श्री एल. आर. खुराना
20.	श्री जनार्दन सिंह

1	2
21.	श्री रामबाबू शर्मा
22.	श्री अशोक कुमार जैन
23.	श्री जे. आर. मीणा
24.	श्री सुखदेव--(एपीएस)
25.	श्री बलजीत सिंह दहिया
26.	श्रीमती राजकिशोरी
27.	श्री जीत राम
28.	श्री मदन राम
29.	श्री केशव सिंह
30.	श्री जी. सी. भट्ट
31.	श्री एस. डी. बर्थवाल
32.	श्री के. एस. पायल
33.	श्री महेन्द्र सिंह-I
34.	श्री रूपचन्द
35.	श्री आर. सी. पंत
36.	श्री पी. वी. लिंगम
37.	श्री राजबीर सिंह
38.	श्री एस. के. दुबे--(एपीएस)
39.	श्री राजबीर
40.	श्री उदय सिंह
41.	श्री पुरुषोत्तम लाल
42.	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा
43.	श्री देवेन्द्र पाल सिंह
44.	श्रीमती रेखा रानी
45.	श्री पी. सी. शर्मा
46.	श्री डी. सी. शर्मा--(महानिदेशालय)
47.	श्री बिहारी लाल--(एपीएस)
48.	श्री आर. के. मीणा
49.	श्री बी. एस. दुहान--(एपीएस)
50.	श्री एस. एन. कौन्टियाल
51.	श्री सी. पी. सारस्वत
52.	श्री रवि
53.	श्री बी. सी. बटवाल--(महानिदेशालय)
54.	श्री राजकुमार--(एपीएस)
55.	श्री अशोक कुमार--(एपीएस)
56.	श्री उमेश कुमार
57.	श्री रवि मोड़्डा

1	2
58.	श्री एस. के. तिवारी
59.	श्री इन्द्रेक्ष कुमार वर्मा
60.	श्री रूपेन्द्र कुमार
61.	श्री सुबोध कुमार शर्मा
62.	श्री विरेन्द्र सिंह

ह./- अपठनीय
सहायक निदेशक (स्टाफ)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. ई.आर.बी. I/2008/2/2--श्री एस. एन. मुखर्जी, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.या.से., पूर्व रेलवे को 15.02.2008 के पूर्वाह्न से 24,050/---26,000/- रु. के ग्रेड में अपर सदस्य (वाणिज्य), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. ई(ओ)III-2008/आरएन/05--फ्रेश एंड हेल्थी एंटरप्राइजेज लि. (कॉनफोर के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी) में स्थायी समाहन होने का परिणामस्वरूप, श्री एन. के. जावा, भा. रे. यां. इ. से., ने 08.01.2007 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी. I/2006/2/52--श्री शकील अहमद, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा, रेलवे बोर्ड को 30.11.2007 के पूर्वाह्न से 22,400--24,500/- रु. के ग्रेड में सलाहकार, (यांत्रिक) पीपीपी, रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी. I/2006/2/52--श्री वी. के. पब्बी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा, रेलवे बोर्ड को 30.11.2007 के पूर्वाह्न से 22,400--24,500/- रु. के ग्रेड में सलाहकार, यांत्रिक इंजीनियरी (विकास), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी. I/2007/10/4--श्रीमती सुषमा पाण्डेय, अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड 01.02.2008 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी. I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी 31.01.2008 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

- (i) श्री जे. एस. गुसाई निदेशक स्थापना (अराज.)
(ii) श्री बी. एस. गुसाई अनुभाग अधिकारी

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 3 मार्च 2008

सं. ई.आर.बी. I/2007/3/11--श्री संजय आनन्द, सहायक, रेलवे बोर्ड को 19.02.2008 के पूर्वाह्न से, रेलवे बोर्ड में 6,500--10,500/- रु. के ग्रेड में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. ए-12025/91/2007-ई-II(बी)--राष्ट्रपति, श्री एन. गोकुलराम, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 74) को दिनांक 02.01.2008 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतन में अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पद पर नियुक्त करते हैं।

वीरेन्द्र मोहन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2008

सं. 07/2008-मि.सं. ए-38012/1/2007-प्रशा. एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी भारत सरकार की सेवा से अपने नाम के आगे दिये गये तिथि के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	अधिवर्षिता की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री वासुदेव गुहा	उप निदेशक	30.11.2007
2.	श्री राजिन्दर कुमार	उप निदेशक	30.11.2007
3.	श्री अशोक कुमार-II	निदेशक	31.12.2007
4.	श्री एस. के. अग्रवाल	उप निदेशक	31.12.2007

1	2	3	4
5.	श्री नवीन चन्द्रा	उप निदेशक	31.12.2007
6.	श्री एस. के. मोहनराम	मुख्य अभियन्ता	31.01.2008
7.	श्री आर. के. राय	उप निदेशक	31.01.2008

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 फरवरी 2008

सं. 3/1/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में श्री एम. सी. शर्मा और डा. एस. के. भारद्वाज, वैज्ञानिक 'सी' को सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में वैयक्तिक तौर पर स्वस्थाने आधार पर दिनांक 20 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

मोहन लाल, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 7/4/2006 सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार, अर्धक्षेत्र जल भू-वैज्ञानिक (वैज्ञानिक 'डी') को 04.12.2007 के अपराह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में क्षेत्रीय निदेशक (समूह-क) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस. सैनी, उप सचिव

सं. 7/21/2006-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, निम्नलिखित 3 (तीन) अधिकारियों को प्रत्येक के आगे दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति द्वारा 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'बी' के ग्रेड में कनिष्ठ जल भूवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री ए. के. चटोपाध्याय	13.12.2007 (अपराह्न)
2.	श्री एस. के. सिन्हा	13.12.2007 (अपराह्न)
3.	डॉ. बी. सी. जोशी	13.12.2007 (अपराह्न)

वे कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपने विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहन एस. सैनी, उप सचिव

सं. 7/21/2005-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, श्री रंजन सिन्हा को 31.12.2007 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'बी' (कनिष्ठ भूभौतिक विज्ञानी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वे कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपने विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहन एस. सैनी, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2008

सं. 7/11/2006-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, नीचे उल्लिखित 4 सहायक कमिस्टों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति द्वारा 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ख' के ग्रेड में कमिस्ट के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्रीमती सी. एम. सिंह	14.12.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री आर. के. शर्मा	02.11.2007 (पूर्वाह्न)
3.	श्री जी. के. शर्मा	22.11.2007 (पूर्वाह्न)
4.	श्री के. एस. रावत	02.11.2007 (पूर्वाह्न)

वे कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपने विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहन एस. सैनी, उप सचिव

सं. 4/1/2008-प्रशा. II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.01.2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.-1 (डेस्क) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री प्रेम राज कुंवर की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 फरवरी, 2008 के उनके कार्यालय आदेश सं. ए-22013/1/2006-स्था. के तहत उन्हें कार्य मुक्त करने के परिणामस्वरूप श्री प्रेम राज कुंवर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 05.02.2008 को अपराह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त करती हैं।

2. श्री प्रेम राज कुंवर, अवर सचिव को श्रीमती रुक्मिणी दासगुप्ता, अवर सचिव जिनका स्थानांतरण प्रकाशन विभाग में किया जाना है, के स्थान पर इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में अवर सचिव (फिल्म) के रूप में अगले आदेशों तक एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

राम फल, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 फरवरी 2008

सं. ए-22012/1/2005-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार मेहता, आई.ए.एस. (जे.के. : 88) जो वर्तमान में शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 18.02.2008 (पूर्वाह्न) के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की उनकी पाँच वर्ष की सामान्य अवधि की शेष अवधि अर्थात् 04.09.2011 तक के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18,400--22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2008

सं. ए-12025/03/1999-आई.एस.एच.-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से अगले आदेशों

तक 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई में निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्ति की तिथि
1.	श्री सुभाष बहादुर माथुर	30.11.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री हरी हरन विश्वनाथन	03.12.2007 (पूर्वाह्न)
3.	श्री इलांगोवन आर. के.	18.02.2008 (पूर्वाह्न)
4.	श्री बालासुब्रामनियन कांडास्वामी	06.12.2007 (पूर्वाह्न)
5.	श्री उत्तम कुमार दास	30.11.2007 (अपराह्न)
6.	श्री श्रीनिवासन भारथी	04.02.2008 (पूर्वाह्न)

सुभाष चन्द, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th February 2008

No. RS/3/3/2008/5-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Kum. Manjeet Kaur Sethi, Deputy Director (Reporting) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Director (Reporting) in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

No. RS/3/3/2008/6-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Junior Parliamentary Reporter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Reporter in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders :—

1. Shri Vinod Kumar
2. Shri Arun Kumar Gupta

C. B. RAI, Jt. Director

No. RS/3/8(1)/2008/7-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Suresh Kumar Bakshi, Assistant Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (Security) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

No. RS/3/8(1)/2008/8-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (Security) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders :—

- (i) Shri Sunil Shokeen
- (ii) Shri Dharam Bir Sharma
- (iii) Shri Shajee Augustin

C. B. RAI, Jt. Director

The 29th February 2008

No. RS/1012/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Manohar Ram Arya, Assistant Director retired from service with effect from the afternoon of the 29th February, 2008.

C. B. RAI, Jt. Director

No. RS/1555/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Satbir Singh, Deputy Director (Security) retired from service with effect from the afternoon of the 29th February, 2008.

C. B. RAI, Jt. Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 19th February 2008

No. A-20012/05/2005-Ad. I.—Consequent upon his appointment as Secretary, University Grant Commission (UGC) under the Department of Higher Education, in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- for a period from the date of assumption of the charge of the post till the completion of his combined Central deputation period of 7 years, i.e. upto 22.12.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier, Shri Raju Sharma, IAS (UP : 82) relinquished the charge of the post of Director & Ex-officio Joint Secretary, National Authority for Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat with effect from 19th February, 2008.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th February 2008

No. A. 12025/17/2007 Admn. I.—On the recommendations of UPSC, the President is pleased to appoint Shri S. Swarna Ganapathy, a regular Deputy Adviser (Project Appraisal) in the Planning Commission as Joint Adviser (Project Appraisal) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- on regular promotion basis w.e.f. 25th February, 2008 or until further orders, whichever is earlier.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 27th February 2008

No. A-12023/5/2005-Admn. III (LA).—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint the following persons as Accountant Member of the Income Tax Appellate Tribunal with effect from the dates as mentioned against their names and until further orders :—

S.No.	Name and Designation	Date of assumption of Charge
1.	Shri Boramaraju Ramakotiah, Accountant Member	11.02.2008 (F/N)
2.	Shri A. N. Pabreja, Accountant Member	11.02.2008 (F/N)

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 12th February 2008

No. 14016/14/2005-UTS. I.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 239 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Satya Gopal, IAS (AGMU : 88), as Administrator of the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with effect from the forenoon of 29th January, 2008, until further orders.

V. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 3rd March 2008

No. I-18011/6/2007-IPS. IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Sanjay Kumar Jain, IPS (AGMU : 2002), in the Indian Police Service with effect from the 07th September, 2005.

RAJINDER KUMAR, Section Officer

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &
PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 22nd February 2008

No. 13017/41/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Haryana and the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Shri Krishna Mohan, IAS (HR : 77) from Haryana cadre to AGMU cadre for the period beyond 5.12.07 and upto 31.03.08.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

The 25th February 2008

No. 13017/11/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of West Bengal and Kerala, the Central Government hereby accords approval for the inter cadre deputation of Shri P. B. Saleem, IAS (WB : 2001) from West Bengal cadre of the IAS to Kerala cadre of the IAS for a period of three years with the direction that this may not be quoted as a precedent.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

No. 13017/37/2006-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Assam-Meghalaya and Maharashtra, the Central Government hereby accords approval for the inter

cadre deputation of Shri Khade Nitin Kumar Shivdas, IAS (AM : 2004) from Assam-Meghalaya cadre of the IAS to Maharashtra cadre of the IAS for a period of three years with the direction that this may not be quoted as a precedent.

ZILEY SINGH VICAL, Desk Officer

New Delhi, the 26th February 2008

No. 14015/02/2007-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2007 on 19.02.2008 containing the name(s) of the following member(s) of the State Civil Service of the State of AGMUT (Mizoram) prepared by the Selection Committee in its meeting held on 20.11.2007 towards filling up 1 (one) existing vacancies in the AGMUT (Mizoram) cadre of the Indian Administrative Service, during 2007 :—

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Smt. M. Zohmingthangi (S.T.)	03.02.1953

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/02/2007-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member(s) of the State Civil Service of AGMUT (Mizoram) to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate her to the AGMUT (Mizoram) Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Smt. M. Zohmingthangi (S.T.)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 28th February 2008

No. 14015/21/2007-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2007 on 19.02.2008 containing the name(s) of the following member(s) of the Non-State Civil Service of the State of Tamil Nadu prepared by the

Selection Committee in its meeting held during 30.12.2007 and 31.12.2007 towards filling up 5 (five) existing vacancies in the Tamil Nadu cadre of the Indian Administrative Service, during 2007:—

SELECT LIST 2007

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Smt. J. Uma Maheswari	15.10.1954
2.	Shri J. Chandrakumar	31.03.1954
3.	Shri K. Raghupathy	20.04.1961
4.	Shri C. Rajendran	10.05.1956
5.	Shri P. Muthuveerran (S.C.)	01.08.1954

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/21/2007-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member(s) of the Non-State Civil Service of Tamil Nadu to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Tamil Nadu Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Smt. J. Uma Maheswari
2.	Shri J. Chandrakumar
3.	Shri K. Raghupathy
4.	Shri C. Rajendran
5.	Shri P. Muthuveerran (S.C.)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 22nd November 2007

No. 11019/24/1999-AIS-III.—The President is pleased to direct that Smt. Mythili Yerra, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Cadre of Andhra Pradesh (AP : 92) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of Rule 7(2) of the All India Service (Leave) Rules, 1955.

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 28th February 2008

No. 14012/13/2006-AIS-III.—In exercise of the powers

conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Donald Phillips Wahlang	1993	06.09.1995
2.	Dr. Shakil P. Ahamed	1995	04.09.1997
3.	Shri Pamu Sampath Kumar	1997	08.09.1999
4.	Shri Frederick Roy	2000	04.09.2002
5.	Shri Mebanshailang R. Synrem	2002	02.09.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14013/08/2005-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Haryana, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Om Parkash Indora (Retd.)	1993	04.01.2002
2.	Shri C. R. Rana	1995	04.01.2002

2. The confirmation of the above mentioned officers is subject to the final outcome of O.A. No. 491/HR/2000 filed by Shri V. K. Verma before the Hon'ble CAT Chandigarh.

G. C. PANDEY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110001, the 28th February 2008

No. A-11013/3-2007-AR(Ad. I).—Sanction of the President is hereby accorded to create one post of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- for a period of one year to deal with reports/recommendations of Administrative Reforms Commission in Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

ANURAG SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th February 2008

No. Q/PA-I/27/2008.—The President is pleased to appoint

the following officer presently in Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the Service with effect from the forenoon of February 20, 2008 :

Sl. No.	Name of the officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Shri Manoj Kumar Bharti	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade-III of IFS, the officer relinquished charge of the post in Grade-IV of IFS on the forenoon of 20.02.2008 and assumed charge of the post in Grade-III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th February 2008

No. 4 (F. No. 4/21/2007-Ad. ED).—The President is pleased to appoint the following officers holding the post of Special Directors of Enforcement in the grade of Rs. 16,400—20,000/- to the upgraded scale of Rs. 18,400—22,400/- w.e.f. 12.2.2008 (FN) for the balance Central tenures of the officers :—

Sl. No.	Name of the Officers
	S/Shri
1.	S. K. Panda, IRS (C&CE) : 1982
2.	K. Nageswar Rao, IRS (IT) : 1986
3.	P. K. Das, IRS (C&CE) : 1983

K. K. KHATTAR, Under Secy.

New Delhi, the 14th February 2008

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE
ESTABLISHMENTS

No. 9/2008. (F. No. C-18011/23/2002-Ad. II).—The President is pleased to order in pursuance of the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 22.11.1996 in Writ Petition (C) No. 306/1988 that Shri E. K. Pathak, Gr. 'B' officer in the cadre of Customs Appraisers shall be deemed to have been promoted to the Junior Time Scale of IC&CES Group 'A' on regular basis for the panel year 1987 and his name has been placed at Sl. No. 19A below Shri D. H. Shobhani (Sl. No. 19) and above Shri M. Mukherjee (Sl. No. 20) in the panel year in the Notification No. 30/2000 dated 21.11.2000 vide F. No. 32012/8/2000-AAAd. II(Pt.).

2. This appointment is subject to the final outcome of any Court/CAT case pending in the matter.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 25th February 2008

No. 11012/1/2006-IES.—The President is pleased to appoint the following candidates who were successful in the Indian Economic Service Examination 2006 conducted by the Union Public Service Commission, to the Indian Economic Service in the Junior Time Scale in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- under Rule 8 (i) (a) (i) of the IES Rules, as amended, on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Joining
1.	Ms. Chandrani Gupta	04.02.2008 (F/N)
2.	Ms. Bhurnika Verma	04.02.2008 (F/N)
3.	Shri Sudhansu Mohan Samal	04.02.2008 (F/N)
4.	Ms. Swayamprava Pani	04.02.2008 (F/N)
5.	Shri Prasanth C.	04.02.2008 (F/N)
6.	Shri Mukesh Kumar	04.02.2008 (F/N)
7.	Ms. Urmila	04.02.2008 (F/N)
8.	Shri Praveen Kumar	04.02.2008 (F/N)

RAJAN KUMAR, Dir. (IES)

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 20th February 2008

No. A-12026/1/2006-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby authorizes Justice Mahesh Chand Jain, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, to discharge the functions of Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Allahabad also with immediate effect until further orders.

A. BHATTACHARYA, Dir.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 30th January 2008

No. A. 12026/2/2008-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri S. Ramanan, Under Secretary (Select List 1997), to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Ministry of Finance, Department of Expenditure on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of the 21st January, 2008 against a vacant post of Joint Director in the Staff Inspection Unit of the Department of Expenditure until further orders.

2. The above-mentioned ad-hoc appointment is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 7th January 2008

No. A-4(31)/2007-EPZ.—The President is pleased to appoint Smt. Maya D. Kem, Additional Director General of Foreign Trade, Office of Directorate General of Foreign Trade to the post of Development Commissioner, Mundra Special Economic Zone, Mundra (Gujarat), in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- for a period of one year, with effect from 20.12.2006 (FN), or until further orders, whichever is earlier.

Mrs. B. RAVINDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 13th February 2008

No. A. 19011/2/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Amit Sahai, IFS (AM : 87) as Director in the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises with effect from the forenoon of 11th February, 2008 for a period upto 23.12.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

K. K. SHARMA, Under Secy.

No. A. 19011/4/2006-Admn.—The President is pleased to allow Shri R. R. Bharati to relinquish the charge of the post of Additional Private Secretary to the Minister of State in the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Smt. Kanti Singh) w.e.f. 08.02.2008 (FN).

2. Consequent on relinquishment of charge, Shri R. R. Bharati has been granted 60 days Earned Leave from 08.02.2008 to 07.04.2008. On expiry of leave, the services of Shri R. R. Bharati are placed at the disposal of his parent cadre, viz. Sports Authority of India.

K. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 15th February 2008

No. A-38012/3/2007-E.I.—Sh. S. N. Malviya, Assistant of AFHQ service and presently Assistant Private Secretary to Minister of State (F&PD) (Dr. Akhilesh Prasad Singh) will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of the 29th February, 2008.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST'S

New Delhi-110003, the 30th January 2008

No. 17012/4/2007-IFS-II.—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the President is pleased to appoint the following candidates who completed successfully at the Indian Forest Service Examination 2005/2006 to the Indian Forest Service on probation with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name of the officer	Year of Examination	Date of joining
1.	Shri Abhilash Damodaran	2006	18.08.2007
2.	Shri Alok Kumar	2005	18.08.2007
3.	Shri Basavaraj S. Holeyachi	2006	01.12.2007
4.	Shri D. Tharugansambandam	2006	01.12.2007
5.	Ms. Gaihaolu Thaimai	2006	18.08.2007
6.	Shri K. K. Saravana Kumar	2006	03.12.2007
7.	Shri Manoj Kumar Sonkar	2006	01.12.2007
8.	Shri Manjunatha C.	2006	03.12.2007
9.	Ms. M. Mercy Bella	2006	18.08.2007
10.	Shri M. Ravikumar	2006	18.08.2007
11.	Shri Murthy BNN	2006	18.08.2007
12.	Shri R. Thanga Pandian	2006	01.12.2007
13.	Ms. Raj Sandeep	2006	18.08.2007
14.	Ms. Rakhi Nanda	2006	18.08.2007
15.	Shri Ritto Cyriac T.	2006	03.12.2007
16.	Shri Rohita Kumar Lenka	2006	01.12.2007
17.	Shri RV Karnan	2006	18.08.2007
18.	Shri Sanjeev Kumar Tiwari	2006	01.12.2007
19.	Ms. Shivani Dogra	2006	18.08.2007
20.	Shri Sidamappa MC	2006	18.08.2007
21.	Shri Sujee Kumar	2006	01.12.2007
22.	Shri S. Sudhakar	2006	01.12.2007
23.	Shri Takhat Singh Ranawat	2006	18.08.2007
24.	Shri Vishwesh Kumar	2006	18.08.2007

B. C. BEHERA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 15th February 2008

No. A-32012/1/2007-P-I (.).—The President is pleased to appoint the following Scientists "E" (Rs. 14,300-400-18,300/-) in the Ministry of Environment and Forests as Scientist "F" in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000/-, on promotion under the modified Flexible Complementing Scheme (FCS), with effect from 09.02.2008 (forenoon) until further orders :—

1. Dr. K. K. Garg
2. Dr. P. B. Rastogi
3. Dr. E. V. Muley
4. Dr. Saroj

M. L. WADHWANI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 14th February 2008

No. 17013/18/2006-IFS. II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of year-wise Select Lists for the year 2006 and 2007 was held on 13th December, 2007. Union Public Service Commission have now approved the year-wise Select Lists prepared in the said meeting containing the name of the following members of the State Forest Service of Tamil Nadu towards filling up of four promotion quota vacancies available as on 1st January, 2006 and two promotion quota vacancies available as on 1st January, 2007 in Tamil Nadu Cadre of the IFS :—

SELECT LIST OF 2006

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	J. S. Ambrose	03.01.1955
2.	R. Rajendran	01.04.1953
3.	D. Mani	10.07.1952
4.	M. Sundarakumar	15.03.1954

SELECT LIST OF 2007

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	K. Soundarapandian	06.06.1956
2.	Thangaraju N.	13.07.1956

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th February 2008

No. A-12025/24/97-CHS-IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. S. M. Chakranarayan to the post of

Specialist Grade II (Radio-Diagnosis) in Non Teaching Specialist sub Cadre of Central Health Service on probation w.e.f. the forenoon of 5th November, 1997 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

The 23rd January 2008

No. A-12025/23/2007-CHS. III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Roopesh Kumar V. R. to the post of Assistant Professor in the speciality of Neuro-Surgery in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 26.10.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

The 29th February 2008

No. A-12025/26/2006-CHS-IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ratan Gupta to the post of Specialist Gr.-II (Paediatric) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation and post him in Govt. of NCT of Delhi w.e.f. the forenoon of 29th January, 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

New Delhi-110011, the 26th February 2008

No. A-12025/116/2004-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bharti Uppal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 23rd October, 2006 until further orders. Dr. Bharti Uppal is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. Dr. Bharti Uppal shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 27th February 2008

No. A-12025/62/2006-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manisha Mittal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from afternoon of the 25.06.2007 until further orders. Dr. Manisha Mittal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Meerut. She would be on probation for a period of two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/111/2004-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lokesh Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 4th October, 2006 until further orders. Dr. Lokesh Sharma is posted as Medical Officer under Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi. Dr. Lokesh Sharma shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 20th February 2008

No. A-12023/02/2006-E.I.—On the recommendations of the UPSC, the President is pleased to appoint Sh. Pradeep Kumar Bali, presently posted as Deputy Director in National Commission on Population in Ministry of Health & Family Welfare on adhoc basis, to the same post on regular deputation basis for a period of three years with immediate effect or until further orders, whichever is earlier.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

[DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)]

New Delhi, the 14th December 2007

No. A-33012/1/2005-AYUSH (E-II).—Consequent upon completion of her training programme in Australia on 13.12.2007 & in pursuance of Deptt. of Personnel & Training's O.M. No. 5/5/2001-EO(MM.I) dated 12.12.07, Smt. Sangeeta Goel, IOFS(89), Director in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), M/o Health & Family Welfare is relieved of her duties in the Deptt. of AYUSH, w.e.f. the afternoon of 14.12.2007 with directions to report for duty to her parent cadre i.e. the Ministry of Defence.

SUMAN CHATTERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 12th February 2008

No. A-19012/2/2008-EA.—The President is pleased to appoint Smt. Shobha Marwah, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 15th January, 2008.

H. C. RUSTAGI, Under Secy.

No. A-19012/1/2008-EA.—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Lochan, a Senior Administrative Grade (SAG) level officer of Indian Statistical Service (ISS), to the post of Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 15th January, 2008.

H. C. RUSTAGI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, 26th February 2008

No. A-19011/17/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Bevis A. Coutinho, IAS (KN : 77) as Additional Secretary & Financial Adviser in the pay scale of Rs. 22,400—24,500/-, in the Department of Agriculture Research & Education, Ministry of Agriculture, with effect from the forenoon of 17th January, 2008.

D. K. CHHATWAL, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th February 2008

No. 42018/11/2004-Estt. (TA).—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/17/2007-CS. I (Desk) dated 06.12.2007 and on being relieved by Ministry of Urban Development vide thier Office Order No. A-32013/1/2007-Admn. I dated 26.12.2007, the President is pleased to appoint Sh. Gordhan Lal, to the post of Under Secretary in this Ministry on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 26.12.2007 until further orders.

2. This ad-hoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor. This appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 27.10.2005.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 25th February 2008

No. 12034/2/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. S. K. Raja, IAS (CG : 98) to the post of Private Secretary to Minister for Tribal Affairs (Sh. P. R. Kyndiah) at the level of Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- for a period of five years with effect from the forenoon of 18.02.2008 till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 27th February 2008

No. A-12025/1/2008-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shrimati Kailash Dutta, a Grade I officer of Central Secretariat Official Language Services to the post of Director (OL) in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- on ad-hoc basis with effect from 20.2.2008 (A/N) for a period of one year or till regular incumbent to the post becomes available, whichever is earlier.

L. T. TLUANGA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 25th February 2008

No. 2(8)/2007-Pers. I (Vol. II).—The President is pleased to appoint Shri Navneet, (E. Code-961) as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity in the Department of Information Technology with effect from the forenoon of 11.02.2008.

2. He will draw pay at the minimum of the above scale of pay.

3. He will be on probation for a period of one year from the date of appointment.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

The 29th February 2008

No. 4(392)/88-Pers. I.—On attaining the age of superannuation, Dr. Ram Gopal Gupta, Scientist 'G' (Emp. Code No. 103) in the Department of Information Technology retires from service with effect from afternoon of 29.02.2008.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th February 2008

No. PF/4330/NIC/2008-Adm.-I.—The President is pleased to accept the resignation of Smt. Sonal Kalra, (Emp. Code-4330) from the post of Scientist "C", NIC-HQ, New Delhi with effect from the afternoon of 29th February, 2008 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Dir. (Admn.-I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 25th January 2008

No. 13-I/2008-SPG.—Shri Chander Singh, Asstt. Director (Philately), an officer of Postal Service Group "B" in Department of Posts, is retiring from Govt. service w.e.f. 31.01.08 (A/N) on attaining the age of superannuation.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 28th January 2008

No. 1-1/2008-SPG.—Shri A. Annamalai (IPoS-1979), Postmaster General, Southern Region, Madurai is retiring on superannuation from Government service w.e.f. 31.01.2008.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 30th January 2008

No. 13-19/2007-SPG.—Shri R. K. Gupta, a Senior Time Scale of Group—A officer, posted as Director Postal Service, Gorakhpur (Adhoc) Junior Administrative Grade of Indian Postal Service Group A in Department of Posts is retiring from Govt. Service w.e.f. 31.01.2008 on attaining the age of superannuation.

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 31st January 2008

No. 4-3/2008-SPG.—Sh. R. S. Kardam, a regular JTS Group A officer of Indian Postal Service Group 'A' and working as Assistant Director General (Postal Operations), Dak Bhawan, New Delhi-01 is retiring on superannuation from Government service w.e.f. 31.01.2008 (A/N).

B. P. PANT, Asstt. Dir. Gen. (SGP)

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF POSTMASTER
GENERAL DELHI CIRCLE

New Delhi-110001, the 29th February 2008

Sub : Regarding Notification of Names of Asstt. Superintendent posts in the Gazette of India.

No. Staff/BB-5/ASP/Tfr/07.—The Principal Chief Postmaster General, Delhi is pleased to inform that the following Asstt. Superintendent Posts were appointed in Asstt. Superintendent Posts Cadre in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/-. Prior to 28.07.2005, this cadre was a non-gazetted cadre and it has been ordered now to notify the names of all Asstt. Superintendent Posts in Gazette of India.

S. No.	Name
1	2
1.	Sh. Jagdish Babu—APS
2.	Sh. Kamal Singh—APS
3.	Sh. Khushi Ram Sharma
4.	Sh. J. P. Pandey—APS
5.	Sh. A. S. Kala
6.	Sh. S. V. Sadwarte
7.	Sh. D. N. Sharma
8.	Sh. Dinesh Chander Sharma

1	2
9.	Sh. Devender Mani
10.	Sh. Kailash Chand
11.	Sh. Yudhishter Sharma
12.	Sh. Ramesh Chand
13.	Sh. S. L. Kandwal—APS
14.	Sh. Bhagwan Malik—APS
15.	Sh. J. P. Rajour
16.	Sh. Basheshwar Dayal
17.	Sh. S. P. Singh
18.	Sh. A. S. Dahiya
19.	Sh. L. R. Khurana
20.	Sh. Janardan Singh
21.	Sh. Ram Babu Sharma
22.	Sh. Ashok Kumar Jain
23.	Sh. J. R. Mecna
24.	Sh. Sukhdeo—APS
25.	Sh. Baljeet Singh Dahiya
26.	Smt. Raj Kishori
27.	Sh. Jeet Ram
28.	Sh. Madan Ram
29.	Sh. Keshav Singh
30.	Sh. G. C. Bhatt
31.	Sh. S. D. Barthwal
32.	Sh. K. S. Payal
33.	Sh. Mahender Singh-I
34.	Sh. Roop Chand
35.	Sh. R. C. Pant
36.	Sh. P. V. Lingam
37.	Sh. Rajbir Singh
38.	Sh. S. K. Dubey—APS
39.	Sh. Rajbir
40.	Sh. Udai Singh
41.	Sh. Purushottam Lal
42.	Sh. Rameshwar Dayal Sharma
43.	Sh. Devender Pal Singh
44.	Smt. Rekha Rani
45.	Sh. P. C. Sharma
46.	Sh. D. C. Sharma—Dte.
47.	Sh. Behari Lal—APS
48.	Sh. R. K. Mecna

1	2
49.	Sh. V. S. Duhoon—APS
50.	Sh. S. N. Dhoundiyal
51.	Sh. C. P. Sarswat
52.	Sh. Ravi
53.	Sh. V. B. Yadav—Dte.
54.	Sh. Raj Kumar—APS
55.	Sh. Ashok Kumar—APS
56.	Sh. Umesh Kumar
57.	Sh. Ravi Midha
58.	Sh. S. K. Tiwari
59.	Sh. Indresh Kumar Verma
60.	Sh. Rupender Kumar
61.	Sh. Subodh Kumar Sharma
62.	Sh. Virender Singh

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Dir. (Staff)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th February 2008

No. ERB-1/2008/2/2.—Shri S. N. Mukherjee, HAG/TRTS, Eastern Railway, is appointed as Additional Member (Commercial), Railway Board, in Grade Rs. 24,050—26,000/- with effect from the forenoon of 15.02.2008.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

The 29th February 2008

No. E(O) 111-2008/RN/05.—Consequent upon his permanent absorption in Fresh and Healthy Enterprises Limited (a wholly owned subsidiary of CONCOR), Shri N. K. Jawa, IRSME, has resigned from Railway service with effect from 08.01.2007 (FN).

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

No. ERB-1/2006/2/52.—Shri Shakeel Ahmed, SAG/IRSME, Railway Board, is appointed as Adviser (Mech)/PPP, Railway Board, in Grade Rs. 22,400—24,500/- with effect from the forenoon of 30.11.2007.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

No. ERB-1/2006/2/52.—Shri V. K. Pabby, SAG/IRSME, Railway Board, is appointed as Adviser, Mechanical Engineering (Dev), Railway Board, in Grade Rs. 22,400—24,500/- with effect from the forenoon of 30.11.2007.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4.—Smt. Sushma Pande, Addl. Member (Budget), Railway Board retired Voluntarily from service w.e.f. 01.02.2008 (FN).

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4.—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.01.2008.

- (i) Shri J. S. Gusain Director Establishment (N).
(ii) Shri B. S. Gusain Section Officer.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

The 3rd March 2008

No. ERB-I/2007/3/11.—Shri Sanjay Anand, Assistant, Railway Board is appointed as Welfare Officer in Grade Rs. 6,500—10,500/- in Railway Board with effect from the forenoon of 19.02.2008.

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 26th February 2008

No. A-12025/91/2007-E-II(B).—The President is pleased to appoint Shri N. Gokulram, IAS (KN : 74), Chairman, National Highways Authority of India in the rank and pay of Secretary to the Government of India in his present post w.e.f. 2.1.2008 (AN) until further orders.

VIRENDERA MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 26th February 2008

No. 07/2008. (File No. A-38012/1/2007-Admn. I).—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, in the Central Electricity Authority, retired from service under the Government of India in the afternoon of the date mentioned against each, on attaining the age of superannuation :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Superannuation
1.	Shri Basudeva Guha	Deputy Director	30.11.2007
2.	Shri Rajinder Kumar	Deputy Director	30.11.2007
3.	Shri Ashok Kumar II	Director	31.12.2007
4.	Shri S. K. Aggarwal	Deputy Director	31.12.2007
5.	Shri Navin Chandra	Deputy Director	31.12.2007
6.	Shri S. K. Mohanram	Chief Engineer	31.01.2008
7.	Shri R. K. Roy	Deputy Director	31.01.2008

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110 003, the 21st February 2008

No. 3/1/2007-Admn.-I.—The President is pleased to appoint Shri M. C. Sharma and Dr. S. K. Bhardwaj, Scientists 'C' in the Ministry of New & Renewable Energy, as Scientists 'D' in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on in-situ basis as personal to the individuals under the Flexible Complementing Scheme with effect from the forenoon of 20th February 2008 until further orders.

MOHAN LAL, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th February 2008

No. 7/4/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar, Superintending Hydrogeologist (Sci. 'D') to the post of Regional Director (Group-A) in the Central Ground Water Board by promotion in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. the afternoon of 04.12.2007.

SOHAN S. SAINI, Dy. Secy.

No. 7/11/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint the following 4 Asstt. Chemists as Chemists in the grade of Scientist-B in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- by promotion in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officers	Date of taking over charge
1.	Smt. C. M. Singh	14.12.2007(FN)
2.	Shri R. K. Sharma	02.11.2007(FN)
3.	Shri G. K. Sharma	22.11.2007(FN)
4.	Shri K. S. Rawat	02.11.2007(FN)

They will be on probation for a period of two years with effect from the date of their joining which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Dy. Secy.

No. 7/21/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint the following 3 (three) officers as Jr. Hydrogeologist in the grade of Scientist-B in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- by promotion in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the officers	Date of taking over charge
	S/Shri	
1.	A. K. Chatopadhyay	13.12.2007(AN)
2.	S. K. Sinha	13.12.2007(AN)
3.	Dr. B. C. Joshi	13.12.2007(AN)

They will be on probation for a period of two years with effect from the date of their joining which may be extended by the competent authority as his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Dy. Secy.

No. 7/21/2005-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Ranjan Sinha as Scientist 'B' (Jr. Geophysicist) in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- in Central Ground Water Board with effect from 31.12.2007(FN).

He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his joining which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 18th February 2008

No. 4/1/2008-Admn. II.—Consequent upon his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, on ad-hoc basis, vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS. I (Desk), dated 16.01.2008, and having been relieved of his duties in the Ministry of Minority Affairs, vide their Office Order No. A-22013/1/2006-Estt, dated 5th February, 2008, the President is pleased to appoint Shri Premraj Kuar, Section Officer of Central Secretariat Service cadre to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, on ad-hoc basis, in the Ministry of Information & Broadcasting in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 05.02.2008.

2. Shri Premraj Kuar, Under Secretary, is hereby posted in the Main Secretariat of this Ministry as Under Secretary (Films), until further orders, vice Smt. Rukmini Dasgupta Under Secretary, to be transferred to the Publications Division.

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st February 2008

No. A-22012/1/2005-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Mehta, IAS (JK : 88) presently working as Director in this Ministry as Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- in the Ministry of Urban Development w.e.f. 18.02.2008(FN) for the balance period of his normal central deputation tenure of five years i.e. upto 04.09.2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

U. VISWANADHAM, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 3rd March 2008

No. A-12025/03/1999-ISH. II.—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Director (Safety) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from the date shown against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the officers	Date of appointment in the Grade of Director (Safety)
	S/Shri	
1.	Subhash Bahadur Mathur	30.11.2007(FN)
2.	Hari Haran Vishvanathan	03.12.2007(FN)
3.	Elangovan R. K.	18.02.2008(FN)
4.	Balasubramanian Kandaswamy	06.12.2007(FN)
5.	Uttam Kumar Das	30.11.2007(AN)
6.	Srinivasan Bharathi	04.02.2008(FN)

SUBHASH CHAND, Under Secy.